

Date: June 29, 2021

To,

The General Manager  
Corporate Relations Department  
**The Bombay Stock Exchange**  
PhirozeJeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai - 400 001  
**Scrip Code - 539875**

The Secretary  
**Calcutta Stock Exchange Limited**  
7, Lyons Range  
Kolkata - 700 001  
**Scrip Code - 28123**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Intimation of Publication of financial result in newspaper**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Audited Financial Results (Standalone& Consolidated) for the Quarter and financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 were duly published in following newspaper:

- 1) Morning India and
- 2) Sanmarg

On June 29, 2021.

The copy of published Results is enclosed for your reference and the same is also being displayed on the website of the Company viz. [www.rsdfinancelimited.com](http://www.rsdfinancelimited.com)

Please take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully

**For RSD Finance Limited**

  
**Rajeev Singh Dugal**  
**Managing Director**  
**DIN - 00052037**

*Enclosure: As above*

AT A GLANCE

SC closes plea on trial in sexual assault case against Tejal

NEW DELHI: The Supreme Court on Monday closed the case related to extension of time after noting that a trial court in Goa has completed the trial by rendering acquittal verdict in the sexual assault case against Tejal...

Covid spread low now, don't postpone or cancel CA exams: ICAI to SC

NEW DELHI: The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has informed the Supreme Court that Covid spread now is substantially low and the Chartered Accountant (CA) exam scheduled in July should not be cancelled or postponed...

'2nd wave still not over, vaccines effective against variants'

NEW DELHI: Warning that the second wave of Covid-19 'still not over', central government's 29th meet of the Group of Ministers (GoM), on Monday, advised people to follow Covid appropriate behaviour to keep themselves safe. The GoM clarified that all anti-Covid vaccines, currently available in the country, are found effective against alpha, beta, gamma and delta variants of the coronavirus.

Need to look ahead, strengthen public health system, says AIMS director

NEW DELHI: As India prepares for the possibility of a third wave of Covid-19 infections and deals with the new variants of Coronavirus like Delta Plus, there is a need to strengthen the public health care system of the country, said Dr Randeep Gulera, All India Institute of Medical Sciences (AIMS) Director (Delhi) on Monday.



Dr Randeep Gulera, AIMS Director, speaking at a press conference.

Centre to issue free tourist visas to first 5 lakh tourists after international travel resumes



Union Health Minister Dr Harsh Vardhan speaking at a press conference.

NEW DELHI: As part of efforts to revive the tourism sector which has been hit hard due to COVID-19, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday announced some measures including free tourist visas to the first five lakh tourists.

She said financial support will be provided to more than 11,000 registered tourist guides and travel and tourism stakeholders. Addressing a press conference here to announce economic relief measures in the wake of the pandemic, she said that under the new Loan Guarantee Scheme for COVID-affected sectors, working capital or personal loans will be provided to people in the tourism sector to discharge liabilities, and restart businesses impacted due to COVID-19.

'Historic', says Harsh Vardhan as India overtakes US in total number of vaccine doses administered

NEW DELHI: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on Monday said it is 'historic' that India has overtaken the United States of America in the total number of COVID-19 vaccine doses administered so far. 'Till now, India has administered 32,36,63,297 doses of COVID-19 vaccines. This is historic because today we have overtaken the USA in the number of vaccine doses administered,' he said.

recognized by the ministry. Loans will be provided with a 100 per cent guarantee up to the following limits - Rs. 10,00,000 for TTS (per agency) and Rs. 1,00,000 for tourist guides licensed at regional or state level.

There will be no processing charges or prepayment charges and no additional collateral requirement. The scheme will be administered by the Tourism Ministry through NCGTE. Sitharaman said the first five lakh tourists who come to India once international travel resumes will not have to pay visa fees.

Office of the Chief Electoral Officer Cabinet (Election) Department Sector 2, Dhurwa, Ranchi - 834004

Tender Notice This Tender Notice is issued by the Chief Electoral Officer, Jharkhand, Ranchi for inviting requests for proposals from experienced and reputed organizations for Supply and Install of Signboards for Common Service Centre (CSC) Pragna Kendra known as Voter Facilitation Centre also in Jharkhand. The time schedule for various activities flowing from the issue of this Tender Notice shall be as follows:-

कार्यालय जिला मन्त्र्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग

आवश्यक सूचना एतद द्वारा हजारीबाग जिले के ज्ञानमंजी मन्त्रय सेवा योजना हेतु आवधिक मन्त्रय कृपेको को सूचित किया जाता है कि विहित वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में आवधिक आवेदन में दिनांक 06.07.2021 तक कार्यालय में निम्नलिखित कार्यालय को जमा करना सुनिश्चित करें। यह तय समय अवधि के दौरान संशोधित कार्यालय कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो आवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

New Measures will help stimulate economic activities, generate employment: PM Modi

NEW DELHI: Applauding the measures announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman to boost the economy, Prime Minister Narendra Modi on Monday said that the new measures will help stimulate economic activities, boost production and exports and generate employment.

farmers. Multiple initiatives have been announced which reduce their costs, increase their incomes and support greater resilience and sustainability of agricultural activities, the Prime Minister said. 'Further support has been announced for our small entrepreneurs and self-employed persons, to enable them to sustain their businesses and expand them further. Several initiatives, including financial assistance, are being taken to link them to the tourism, tourism,' he tweeted.

PPP projects and Asset Monetisation demonstrates our Government's continuing commitment to reforms,' he added. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday announced several economic measures to revive the economy amid the COVID-19 pandemic. With a focus on health and medical infrastructure, the Finance Ministry on Monday announced a Rs 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID-19 health sectors. Of the Rs 1.1 lakh crore, the health care sector will get Rs 50,000 crore, while the others will get Rs 60,000 crore. The Centre also announced Credit Guarantee Scheme to facilitate easy lending among children. 'Larger and streamlined processes for

India to share Covid vax technology with 50 countries 'free of cost'

NEW DELHI: India is all set to share 'free of cost' its Covid-19 vaccination technology with more than 50 countries from Latin America, Africa and Asia.

CEO of National Health Authority Dr R.S. Sharma made the revelation while addressing the 2nd Public Health Summit 2021 organized by Confederation of Indian Industry (CII) here.

Director, AIMS, Delhi called for a robust health care system in India with around 2.5 per cent of Gross Domestic Product (GDP) as health budget. He also underlined the need for close collaboration between the Centre and the states on health issues despite health being a state subject. Gulera further called for equitable access to healthcare in rural and remote areas, stressing there is need for augmentation of specialised manpower and upgradation of health infra in the country. Speaking on the event, Union Minister Jitendra Singh said that Covid has strengthened Public Health Partnership model in India's healthcare system with a win-win situation for both. He said that this partnership between Industry and Public Health Experts can work in different models such as health care and diagnostics delivery, vaccine development, Research and Development, telemedicine facilities for rural areas.

कार्यालय जिला मन्त्र्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची

अतिउपलब्धी निविदा सूचना सं-03/2021-22 तात्काल तथा जलवायु मन्त्रय का विकास योजना वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राँची जिले के प्रविष्टि मन्त्रय सेवा योजनाओं को मन्त्रय बीज की निष्पत्ती एवं बीज काई कोमि जल वितरण किया जाता है। उक्त के अन्तर्गत मुद्रयव निविदा आमंत्रित की जाती है।

RSO FINANCE LIMITED Regd. Office: 122B, Jharkhand, Ranchi, Jharkhand. Particulars: Puri Singhpur, Jharkhand-831001. Tel no: 0651-830001, 9917660099. Email id: rsofinance3@gmail.com, rsofinance@rediffmail.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter & Financial Year Ended March 31, 2021

Table with columns: Sl. No., Particulars, Quarter Ended, Year Ended. Rows include Total Income from operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Key numbers of Audited Standalone Financial Results (₹ in lakhs)

Table with columns: Sl. No., Particulars, Quarter Ended, Year Ended. Rows include Turnover, Profit, etc.

NOTE: 1) The above is an extract of the detailed Form of the Audited Financial Results filed with the Stock Exchange for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2021 under Regulation 23 of the SEBI Listing Obligations and Disclosures Requirements, Regulations, 2015.

2) The above results have been reviewed by the Auditors and are approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th June, 2021. The Statutory Auditors of the Company have prepared the Audit Report on these financial statements with an unmodified opinion.

3) The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (Ind AS) read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended till date, from 1st April 2016, with the transition date of 1st April 2016. Such transition has been carried out from the previous Indian Accounting Standards notified under the Act, read with the related rules issued thereunder and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) (collectively referred to as the 'previous GAAP').

For and on behalf of the Board: Rajeev Singh Gupta Managing Director Date: 06/06/2021

India records 46,148 new COVID-19 cases, 979 deaths

NEW DELHI: As many 46,148 new COVID-19 cases and 979 deaths were reported in India in the last 24 hours, informed the Union Health Ministry on Monday. Daily recoveries continued to outnumber the daily new cases for the 46th consecutive day, with 58,375 recoveries in the last 24 hours, dropping the active caseload down to 5,72,994. The national recovery rate stands at 96.80 per cent. The cumulative tally of positive COVID-19 cases in the country stands at 3,02,79,331, including 2,99,09,607 recoveries and 3,36,730 v.

NAME CHANGE

I, Sonu Kumar Rajak @ Sonu Kumar, S/o Late Sukhan Rajak, R/O Sharda Charan Mitra Lane, Hill Side, P.O. GPO, P.S. Sukhdeoanagar, Dist. Ranchi, Jharkhand that my correct name is Sonu Kumar Rajak but I know as Sonu Kumar Raj. Sonu Kumar Rajak and Sonu Kumar Raj is Same and Similar Person i.e. myself. Now I will be known as Sonu Kumar Rajak for all purpose vide affidavit No. 239 dated 14.06.2021.

DHFL DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED POSSESSION NOTICE FOR IMMovable PROPERTY

Regional Office: 41, Shalokapur Sarani, 1st Floor, Duxchak House, Kolkata - 700 011

APPENDIX - IV, Rule 8(1)(b) POSSESSION NOTICE FOR IMMovable PROPERTY Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED (DHFL) under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and in exercise of the Authorized Officer of the company in the Borrower (a) (Borrower) has agreed to pay the amount mentioned in the annexed form to the date of receipt of the said notice. The Borrower has been given the opportunity to be heard by the Borrower (a) (Borrower) and the said notice in general that the undersigned has taken possession of the property described herein before in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Subsidiary Activities) Regulations, 2015 and in exercise of powers conferred on him under Sub-section (12) of Section 13 of the Securities and Exchange Board of India (Securities Contracts) Regulations, 1992 and the Securities and Exchange Board of India (Sub

उपायुक्त से मिले रांची के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल

किस्सी गरीब बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो : डीसी



संवाददाता रांची : विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल ने उपायुक्त रवींद्र शंकर से सोमवार को मुलाकात की।

में स्कूल संचालन में आ रही परेशानियों से अवरुध्द कराया जाय।

डीसी संग निजी विद्यालयों को मान्यता देने पर विचार विमर्श

रांची : आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता देने को लेकर सोमवार को जिला प्राथमिक शिक्षा समिति की बैठक समाह्वारगुलपुर में आयुक्त महिषा प्रीतिम विद्या समिति के अध्यक्ष रंजन को अध्यक्षता में हुआ।

मान्यता देने पर विचार विमर्श

के प्रस्ताव पर भूमि, गौज, यमलोज से जुड़ी आपत्तियों को लेकर टीम बनाकर कार्य करना का निर्देश दिया।

हाइकोर्ट ने शराब दुकान टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

रांची : शराबखंड हाइकोर्ट ने शराब दुकान की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सांसद निष्कांत की पत्नी अनामिका के खिलाफ जांच पर रोक

रांची : शराबखंड हाइकोर्ट ने गोंड के भाजपा सांसद निष्कांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ चला रही जांच पर रोक लगा दी है।

उपायुक्त का यू टर्न लेना उनकी अदूरदर्शिता को दर्शाता है : अभिभावक संघ

रांची : 24 जून को निकाले गए रांची उपायुक्त के द्वारा आदेश को वापस लिए जाने से गवर्नर्स के हवालों अभिभावकों में निराशा खड़ा है।

ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने की राज्य के सभी डीडीसी के साथ वर्युअल बैठक

रांची : मंत्रालय आगत सचिव रंजन ने मंत्रालय कार्यों को सफल ऋणायन को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वर्युअल बैठक की।

बाल सुधार गृह से भागे दो बच्चे, तलाश में जूटी पुलिस

रांची : बाल सुधार गृह से दो बाल बच्चों सोमवार को फरार हो गए।

30 जून तक बिरसा हरिंद गाम के तहत गद्दा खुदाई का कार्य पूर्ण करने का दिनांक

रांची : मंत्रालय आगत सचिव रंजन ने मंत्रालय कार्यों को सफल ऋणायन को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वर्युअल बैठक की।

सदर अस्पताल में पर्ची बनाने के काउंटर से लेकर हर जगह कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन

दिन भर 100 से ज्यादा लोग लगे रहते हैं कतार में सिर्फ दो काउंटरों पर काम होने से लागती है भीड़



रांची : केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार-बार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना की संभावित तीव्र लहर में बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल

सदर अस्पताल के पर्ची काउंटर में हर समय 100 से ज्यादा लोग स्टैंड-स्टैंडर कार में खड़े रहते हैं।

कैबिनेट की बैठक आज

रांची : शराबखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम चार बजे से प्रोचैड्ड भवन में मंत्रालय में होगी।

पंचायतों की अवधि विस्तार दे पर लगा सकती है मुहर

रांची : शराबखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम चार बजे से प्रोचैड्ड भवन में मंत्रालय में होगी।

झारखंड को केंद्र से 15 दिनों में मिलेंगे वैकसीन के 9.57 लाख डोज

रांची : शराबखंड को जुलाई में केंद्र से वैकसीन के 33 लाख डोज मिलने वाले हैं।

किसी को नहीं मालूम लेकिन इलाज के आने वाले मरीजों की मजदूरी है।

Table with 4 columns: S.No, विवरण, आवेदन तिथि, प्रस्तावित राशि (₹), प्रस्तावित राशि (₹)।

Table with 4 columns: S.No, विवरण, आवेदन तिथि, प्रस्तावित राशि (₹), प्रस्तावित राशि (₹)।

एक झलक

रेमोडिफिकेशन कारलाबाजारी के मामले में सीआईडी ने दो लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

रांची : रेमोडिफिकेशन कारलाबाजारी के मामले में सीआईडी ने दो लोगों के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।

अलकतरा घोटाले में ईडी ने बरियारु में पांच करोड़ के घर पर किया कब्जा

रांची : बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बालासोर कोर्ट-दफ्तारवा प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर कब्जा कर लिया।

वीराना पुलिस थाने कोरपोरेट लिमिटेड के खिलाफ सूचना जारी

Table with 4 columns: Case No., आवेदन तिथि, प्रस्तावित राशि (₹), प्रस्तावित राशि (₹)।

कारपालक अभियन्ता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रणवण्ड संस्था-2, रांची

Table with 4 columns: S.No, विवरण, आवेदन तिथि, प्रस्तावित राशि (₹), प्रस्तावित राशि (₹)।